

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी का इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, शुरुआती कारोबारों को सहयोग करने के लिए फाउंडर इंस्टीट्यूट का स्वागत करता है

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (22 सितम्बर, 2020) – अपनी पिछली मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने फाउंडर इंस्टीट्यूट (एफ.आई.) (Founder Institute) (FI) के साथ साझेदारी को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह उच्च-क्षमता, शुरुआती-स्टेज वाली कंपनियों को सहयोग प्रदान करने वाली एक ग्लोबल गतिवर्द्धक (एक्सलरेटर) फर्म है। इस साझेदारी में, फाउंडर इंस्टीट्यूट के लिए, तीन वर्षों तक, हर साल \$30,000 तक की रकम की फंडिंग शामिल है।

एफ.आई. (FI) की वृद्धि, ब्रैम्पटन के डाउनटाउन [इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट \(Innovation District\)](#) का निर्माण करने की ओर दूसरा कदम है, जो उद्यमियों और कारोबारियों को उनके सफर के प्रत्येक पड़ाव में सहयोग प्रदान करेगा। सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का विस्तार करना, सिटी की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) का मुख्य लक्ष्य है।

एफ.आई., विशेष प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंग कोर्सेस, फंडिंग तक पहुंच और सर्वोत्तम मेंटर नेटवर्क के साथ परिचय कराने के द्वारा कंपनियों को सहयोग करता है। एफ.आई. ने 4,300 से अधिक कंपनियों को ग्रैजुएट किया, जिन्होंने \$950M से अधिक रकम इकट्ठी की है और ग्लोबल तौर पर लगभग 25,000 नौकरियां पैदा करने में मदद की है।

साझेदारी के अन्य लाभों में शामिल हैं:

- प्रोग्राम का विस्तार; वाटरलू, टोरोंटो और आसपास के क्षेत्रों में से तकनीकी उद्यमियों को ब्रैम्पटन में लाना
- प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ब्रैम्पटन के उद्यमियों के लिए स्कॉलरशिप्स
- अंतर्राष्ट्रीय शुरुआती उद्यमियों और निवेशकों की पीढ़ी का नेतृत्व
- अंतर्राष्ट्रीय एफ.आई. चैप्टरों के द्वारा, सिटी के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (Foreign Direct Investment) को सहयोग करना
- ग्लोबल एफ.आई. (Global FI) नेटवर्क के द्वारा ब्रैम्पटन की प्रोफाइल बनाने में मदद करना
- समर्पित साइबरसिक्योरिटी स्ट्रीम विकसित करना और साइबरसिक्योरिटी शुरुआती उद्यम के संस्थापकों के लिए प्रोग्रामिंग
- निवेशकों, उद्यमियों और एग्जीक्यूटिव्स को शामिल करके, मेंटर नेटवर्क तैयार करना

ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में अन्य साझेदारों में शामिल हैं, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre); कैटालिस्ट साइबर एक्सलरेटर (Catalyst Cyber Accelerator) (रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Rogers Cybersecure Catalyst) और रायरसन डी.एम.ज़ेड. (Ryerson DMZ) के नेतृत्व में); रिसर्च इनोवेशन कमर्शिलाइज़ेशन (आर.आई.सी.) सेंटर

(Research Innovation Commercialization (RIC) Centre); रायरसन वेंचर ज़ोन (Ryerson Venture Zone); ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.) (Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA)।

हवाले

“जैसे कि हम इस महामारी से उभर रहे हैं और हमारी लोकल अर्थव्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम अपने शहर में स्थापित होने और हमारे बढ़ते इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ने के लिए, उद्यमियों और संभावी निवेशकों का स्वागत करते हैं। फाउंडर इंस्टीट्यूट, ब्रैम्पटन में अंतर्राष्ट्रीय शुरुआती उद्यमियों को आकर्षित करने में हमारी मदद करेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था में और नौकरियां पैदा करने में योगदान देंगे। हम कारोबारियों को उनके सफर के प्रत्येक पड़ाव में सहयोग प्रदान करने के लिए काम करते हुए, फाउंडर इंस्टीट्यूट का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी में मुख्य कार्रवाई है और फाउंडर इंस्टीट्यूट इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे कि हम हमारी सिटी को महामारी से बाहर निकाल रहे हैं, हम अपने उद्यमियों और कारोबारी समुदाय को संपूर्ण बहाली और भविष्य की वृद्धि के योग्य बनने में उनकी मदद के लिए, कई तरह के सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर; को-चेयर, मेयर्स इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कैनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर के केंद्र में हमारे मुख्य स्थान के साथ, ब्रैम्पटन, नवीनता में ग्लोबल लीडर बनने के लक्ष्य के साथ अपने ईकोसिस्टम में वृद्धि कर रहा है। हमारा स्टाफ, फाउंडर इंस्टीट्यूट के साथ की गई साझेदारी की तरह, साझेदारियां करने और ब्रैम्पटन को, उद्यमियों और कारोबारियों के लिए सर्वोत्तम जगह बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मैं ऐसा भविष्य देख सकता हूँ, जहां ब्रैम्पटन बड़ी संख्या में तकनीकी शुरुआती उद्यमियों के लिए घर बन जाएगा। तकनीकी शुरुआती उद्यमियों अक्सर इमीग्रेंट्स द्वारा शुरू किए जाते हैं। ब्रैम्पटन में इमीग्रेंट्स का प्रतिशत काफी अधिक है और यह देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक है, जो टोरोंटो और वाटरलू के दुनियाभर में प्रसिद्ध तकनीकी हब्स के बीच में रहते हैं। पास के शहरों और तकनीकी हब्स को पश्चिम की ओर बढ़ाने वाले आबादी के आधार पर, वहनीय लाभों के साथ, ब्रैम्पटन में शुरुआती उद्यमियों के हब के तौर पर तेज़ी से विकसित होने की क्षमता है।”

- सुनील शर्मा (Sunil Sharma), मैनेजिंग डायरेक्टर, टेकस्टार्स टोरोंटो; को-डायरेक्टर, फाउंडर इंस्टीट्यूट, टोरोंटो एंड वाटरलू चैंप्टर्स

“फाउंडर इंस्टीट्यूट, इसके विकासशील तकनीकी शुरुआती उद्यमियों के ईकोसिस्टम को विकसित करने में मदद के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित है। टोरोंटो तकनीकी कॉरिडोर, कंपनी शुरू करने के लिए दुनिया के सबसे बढ़िया क्षेत्रों में से एक है। हम ब्रैम्पटन के आगे लाने के अवसर के लिए आभारी हैं।”

- *रयान मिशलेटी (Ryan Micheletti), हेड ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस, द फाउंडर इंस्टीट्यूट*

“एफ.आई. का हाल ही का ग्रैजुएट और ब्रैम्पटन का निवासी होने के तौर पर, मैंने एफ.आई. द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मुझे यकीन है कि एफ.आई. और ब्रैम्पटन की साझेदारी के साथ, ब्रैम्पटन के पास, उद्यमियों के नेटवर्क्स का विस्तार करके, साप्ताहिक पिचिंग और ग्रुप सेशन पेश करके और उन मेंटर्स, जिनके अपने खुद भी शुरुआती उद्यम हैं और वे अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, तक पहुंच प्रदान करके, उन्हें सक्षम बनाने का अवसर होगा। कैंनेडा में सबसे बड़े शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन, नवीनता और एंटरप्रीनियर संबंधी सफलता के लिए असली हब के तौर पर स्थापित होगा।”

- *डेनियल येबो (Daniel Yeboah) जनरल मैनेजर, इलेर्का हेल्थ कापरिशन*

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca